



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 350] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 22, 1982/अग्रहायण 1, 1904  
No. 350] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 22, 1982/AGRAHAYAN 1, 1904

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1982

सं० 279/82- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० वि० 714 (अ) - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 144/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982 के अधिकांश करते हुए मुद्रित बक्से और मुद्रित कार्टनों को जिनके अन्तर्गत बपटे या मुड़े हुए बक्से और बपटे या मुड़े हुए कार्टन हैं) काहे के उपाय सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन की समुच्चयित या असमुच्चयित दशा में हो और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (4) के अन्तर्गत आते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती हैं।

सारणी

क्रम सं०	बक्से और कार्टन का वर्णन	शर्तें
(1)	(2)	(3)
1	मिल बोर्ड बक्से और मिल बोर्ड यदि पूर्ण तथा मिल बोर्ड से बनाए कार्टन।	गए हों।
2	स्ट्रा बोर्ड और स्ट्रा बोर्ड कार्टन यदि पूर्णतया स्ट्रा बोर्ड से बनाए गए हों।	
2	नलीदार बोर्ड बक्से और नलीदार बोर्ड कार्टन यदि पूर्णतया काफ़्ट कागज से (जिनके अन्तर्गत विदूमेनिन जलसह काफ़्ट कागज है) या काफ़्ट कागज या नलीदार करने के माध्यम के रूप में शात कागज या कागज बोर्ड से बनाए गए हों याहें मिल बोर्ड या स्ट्रा बोर्ड या स्ट्रा बोर्ड के साथ हों या नहीं।	

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :—

(क) "मिल बोर्ड" से कोई ऐसा अखिरजित सजातीय बोर्ड अभिप्रेत है जिसकी मोटाई 0.50 मिलीमीटर से अधिक हो और जो स्कीनिंग और यांत्रिक लुगदी के साथ या उनके बिना मिश्रित रद्दी कागजों से बनाया गया हो किन्तु उसमें कोई रजक द्रव्य न मिलाया गया हो ;

(ख) "स्ट्रा बोर्ड" से ऐसा बोर्ड अभिप्रेत है जिसे अंशतः पकाए गए अखिरजित स्ट्रा या बगस या घासों या अन्य कृषि अवशेषों या इनमें से किसी के मिश्रण से पूर्णतः या प्रमुखतः बनाया गया हो ;

परन्तु—

- (1) किसी ऐसी सामग्री को, जिसके प्रयोग में लाया गया हो, मात्रा संघटकों के कुल भार के एक-तिहाई भार से अधिक नहीं होगी ; और
- (2) ऐसे बोर्ड को विशेष रूप से संपीडित नहीं किया जाएगा और इसकी किसी भी सतह पर कोई कागज चिपकाया नहीं जाएगा।

[फा० सं० बी 11/10/82-टी भार म.]

बी० लक्ष्मी कुमार हुवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 1982

No. 279/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 714(E) In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.144/82-Central Excises, dated the 22nd April 1982, the Central Government hereby exempts printed boxes and printed cartons (including flattened or folded boxes and flattened or folded cartons) whether in assembled or unassembled condition of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item (4) of Item No 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise payable thereon under section 3 of the said Act, subject to the condition specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Description of boxes and cartons	Condition
(1)	(2)	(3)
1.	Mill board boxes and mill board cartons.	If made wholly out of mill board.
2.	Straw board boxes and straw board cartons.	If made wholly out of straw board.
3.	Corrugated board boxes and corrugated board cartons.	If made wholly out of kraft paper (including bituminised water proof kraft paper) or out of paper and paper board of the type known as kraft liner or corrugating medium, whether or not in combination with mill board or straw board.

Explanation—For the purposes of this notification

- (a) 'mill board' means any unbleached homogeneous board, having a thickness exceeding 0.50 millimetre and made out of mixed waste papers with or without screenings and mechanical pulp but without any collouing matter being added thereto ;
- (b) 'straw board' means a board made wholly or predominantly from partially cooked unbleached straw or bagasse or grasses or other agricultural residues or a mixture of these ;

Provided that—

- (i) the quantity of any other material used shall not exceed one third in weight of the total weight of the ingredients, and
- (ii) such board shall not be specially compressed and shall not have any paper pasted on either surface.

[F. No. B. 11/10/82-TRU]

V. LAKSHMI KUMARAN  
Under Secy.